

# नालको NALCO

एनबीसी/एस/4.5 एवं 4.5(ए)/2021/279  
दिनांक: 12.02.2021

NBC/S/4.5 & 4.5(A)/2021/279  
Date: 12.02.2021

प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फीरोज जीजीभोय टावर्स/ Phiroj Jeejeebhoy Towers, दलाल स्ट्रीट/Dalal Street, मुम्बई/MUMBAI- 400 001 स्क्रिप कोड/Scrip Code: 532234	प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East, मुम्बई/MUMBAI-400 051 प्रतीक/Symbol: NATIONALUM
---	---

**विषय:** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचिबद्धिता दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के अनुपालन में।

**Sub:** Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir,

In terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find a press release on “**NALCO scripts turnaround story; Net profit jumps 123% to Rs.240 crore in 3<sup>rd</sup> Qtr of FY21**”.

The aforesaid information is also disclosed on the website of the company at [www.nalcoindia.com](http://www.nalcoindia.com).

You are requested to please take a note and disseminate the same in your Exchange.

धन्यवाद/Thanking you,

भवदीय /Yours faithfully,  
कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड  
for National Aluminium Co. Ltd.

X N K MOHANTY

N K MOHANTY

Signed by: NAYAN KUMAR MOHANTY

(एन.के. महान्ति)  
(N.K. Mohanty)  
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी  
GM & Company Secretary and Compliance Officer

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
निगम कार्यालय  
नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751 013 भारत

National Aluminium Company Limited  
(A Government of India Enterprise)  
REGD. & CORPORATE OFFICE  
Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013,India

CIN # L27203OR1981GOI000920

Tel.:0674-2301988-999, Ext.:2265, 2266, 2267, 2585, 2587, E-mail:company\_secretary@nalcoindia.co.in,Website:www.nalcoindia.com

**PRESS RELEASE**

**NALCO scripts turnaround story; Net profit jumps 123 % to Rs. 240 crore in 3<sup>rd</sup> Qtr of FY21**



**Bhubaneswar, 12.02.2021:** National Aluminium Company Limited (NALCO), the Navratna PSU, under Ministry of Mines, Govt. of India and country's leading manufacturer and exporter of alumina and aluminium, clocked a net profit of Rs.240 crores for the 3<sup>rd</sup> quarter ended December 2020. The net profit has jumped by 123 % over the previous quarter of current fiscal, which was Rs.107 crore.

The net profit for the nine months ended December 2020 has grown more than ten-fold to Rs.364 crore as against Rs.35 crore in corresponding period of last year. The total income in Q3 of FY21 witnessed substantial growth, clocking Rs.2,415 crores compared to Rs.2,137 crores in Q3 of FY20.

On sales front, the net sales of alumina hydrate for Q3 of FY21 was 3.44 lakh tonnes compared to 3.33 lakh tonnes achieved in the corresponding period of last year. Aluminium export also registered impressive growth, with sales volume of 1.38 lakh tonnes during the first nine months of FY21 as compared to 0.50 lakh tonnes during the same period of FY20.

On production front, the Company achieved strong growth in Q3 of FY21, with Bauxite production of 19.34 lakh tonnes, Alumina hydrate production of 5.55 lakh tonnes while metal production achieved was 1.02 lakh tonnes.

During the first nine months of the current fiscal, NALCO achieved production of 53.48 lakh tonnes of bauxite, 15.07 lakh tonnes of alumina hydrate while metal production was 3.06 lakh tonnes.

Shri Sridhar Patra, CMD, NALCO, said, ‘‘NALCO has shown overall growth and resilience to script a turnaround after the peak period of COVID19 outbreak. The employees and workers delivered, when it mattered under challenging circumstances. The Company is geared up to meet the increase in demand with the gradual opening up of the market and the economy. The Company is also focused on operationalizing the ongoing projects, viz. Utkal-D Coal block, 5<sup>th</sup> Stream Alumina Refinery & Caustic Soda JV projects etc., which will substantially bolster the bottomline of the Company.’’